

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 563] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 1983/अग्रहायण 23, 1905
No. 563] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 14, 1983/AGRAHAYANA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य-संभालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1983

क्रा. सं. 909(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)
की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा जिसमें निर्दिष्ट
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम है, सर्वसाधारण की जानकारी के
लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

महाराष्ट्र में 46 सांगली, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसारण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्रीमती पाटिल शालिनीताई वसंतराव (नाम)

सकान नं. 161, ग्राम-पदमाले,

तहसील—मीरज, जिला सांगली (एता)

उस सदन में श्री पाटिल वसंतराव बंधूजी के त्यागपत्र दिए जाने से हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं ।

हस्ता./-

आर. पी. बग,

रिटर्निंग ऑफिसर

तारीख : 15-11-83

46 सांगली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

[सं. फा. 13(2)/83-वि. 2]

एन. आर. मुशहममदन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 1983

S. O. 909(E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information :—

DECLARATION

Election to the House of the People from the 46 Sangli Parliamentary Constituency in Maharashtra State.

“In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that —

Shrimati Patil Shalinitai Vasantrao

(Name)

H.No. 161, Village Padmale, Tehsil Miraj, District
Sangli (Address)

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House
by the resignation of Shri Patil Vasantrao Banduji.

Place : Sangli

Date : 15-11-1983

Sd/-

R. P. WAGH, Returning Officer
46 Sangli Parliamentary Constituency"

[F. No. 13(2)/83-Leg. II]

N. R. SUBRAMANYAN, Jt. Secy.

